



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 39] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 29—अक्टूबर 5, 2007 (आश्विन 7, 1929)
No. 39] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 29—OCTOBER 5, 2007 (ASVINA 7, 1929)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिजर्व बैंक

सरकारी और बैंक लेखा विभाग

मुंबई, दिनांक 18 सितम्बर 2007

भारत सरकार के राजपत्र में 20 अप्रैल 1946 को प्रकाशित तथा 29 अप्रैल 1954 की अधिसूचना सं. एफ.(8) 70/बी 52 और भारत सरकार के दिनांक 21 फरवरी, 1990 के धारण राजपत्र सं. 67 के अंतर्गत यथा संशोधित लोक ऋण अधिनियम 1944 की धारा 28 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा बनाए गए लोक ऋण नियमावली, 1946 के नियम 18 के अनुसरण अगस्त 2007 को समाप्त माह के लिए निम्नलिखित सूची खो गई आदि ऐसी प्रतिभूतियों के बारे में एतद्वारा विज्ञापित की जाती है, जिसके संबंध में इस बात का विश्वास करने के लिए प्रथम दृष्टया आधार मौजूद है कि प्रतिभूतियां खो गयी हैं और आवेदकों का दावा न्यायोचित है। नीचे लिखे गये संबंधित दावेदारों से इतर सभी व्यक्ति जिनका प्रतिभूतियों पर किसी प्रकार का दावा हो, तत्काल महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, सरकारी और बैंक लेखा विभाग, केन्द्रीय ऋण प्रभाग, मुंबई-400 008 को संसूचित करें। सूची दो भागों में विभाजित की गई है। भाग 'क' में अभी पहली बार विज्ञापित प्रतिभूतियां शामिल की गई हैं और भाग 'ख' में पूर्व विज्ञापित प्रतिभूतियों की सूची दी गई है।

सूची "क"

प्रतिभूतियों की सं.	मूल्य	जिस व्यक्ति के नाम जारी किया	बकाया ब्याज की तिथि	प्रतिभूति के भुगतान के लिए दावेदार का नाम	प्रतिलिपि आदेश तिथि तथा संख्या
1	2	3	4	5	6

--नहीं--

सूची "ख"
भायखला, मुंबई सर्किल
9% राहत बांड 1999 (डिमैट)

प्रतिभूतियों की सं.	मूल्य	जिस व्यक्ति के नाम जारी किया	बकाया ब्याज की तिथि	प्रतिभूति के भुगतान के लिए दावेदार का नाम	प्रतिलिपि आदेश तिथि तथा संख्या
1	2	3	4	5	6
जी.पी.एच. बीसीएन 026022	रु. 40,000/-	प्रभाकर गजानन जागुस्ते (मृत) प्रभावती प्रभाकर जागुस्ते (दोनों में से एक या उत्तरजीवी)	8.7.2000	प्रभाकर गजानन जागुस्ते (मृत) प्रभावती प्रभाकर जागुस्ते	<u>06.25.102</u> <u>11.5.07</u>

जे. एम. बावा
सहायक प्रबंधक

भारतीय स्टेट बैंक

मुम्बई, दिनांक 24 जून 2007

सं. एसबीडी क्र. 04/2007-08--भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 29(1) के निबंधनानुसार भारतीय स्टेट बैंक ने स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर के निदेशक मंडल से परामर्श करके तथा भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन से श्री एस. के. भट्टाचार्य को दिनांक 29.05.2007 से 28.5.2008 तक (दोनों दिन सम्मिलित) के लिए स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर के प्रबंध-निदेशक पद पर पुनः नियुक्त किया है।

ओम प्रकाश भट्ट
अध्यक्ष

दिनांक 15 जुलाई 2007

सं. एसबीडी क्र. 6/2007-08--एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 25, उप धारा (1) के खंड (ग) के अनुसार भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक के साथ विचार विमर्श के बाद भारतीय स्टेट बैंक श्री के. एस. जौहर के स्थान पर श्री सुंदर लाल तिवारी अमाहिया, रीवा-486001, मध्य प्रदेश को स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर के निदेशक पद पर दो वर्ष छः माह की अवधि अर्थात् दिनांक 21 जुलाई 2007 से 20 जनवरी 2010 (दोनों दिन सम्मिलित) तक के लिए नामित करता है।

ओम प्रकाश भट्ट
अध्यक्ष

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

नई दिल्ली-110058, दिनांक 11 सितम्बर 2007

सं. 7-50/2007-सी.के.प.--भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 25 के परिपालन में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् ने एक रजिस्टर यथा भारतीय चिकित्सा के केन्द्रीय रजिस्टर का रख-रखाव किया है जिसमें उन व्यक्तियों का नाम सम्मिलित है जो भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् की केन्द्रीय पंजिका में सीधे नामावलिगत हैं और अधिनियम, 1970 के अधीन मान्यता प्राप्त चिकित्सीय अर्हताओं में से कोई अर्हता रखते हैं।

अतः भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 23 की उप-धारा (2) के परिपालन में रजिस्ट्रार, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली एतद् निदेश देता है कि भारतीय चिकित्सा का केन्द्रीय रजिस्टर का प्रकाशन आम लोगों के सूचनार्थ भारत के राजपत्र में होगा।

टिप्पणी :—भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 25 के अधीन अप्रैल 2004 से सितम्बर 2007 तक शोधित भारतीय चिकित्सा के केन्द्रीय रजिस्टर का संकलन करने में प्रत्येक सावधानी बरती गई है और उसमें यदि कोई छूट/सुधार अपेक्षित हो तो वह रजिस्टर के अगले प्रकाशन में उसके संशोधन हेतु रजिस्टर, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, 61-65, सांस्थानिक क्षेत्र, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 को सूचित किया जाए।

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा सीधे पंजीकृत आयुर्वेद, सिद्ध व यूनानी के चिकित्साभ्यासियों की
भारतीय चिकित्सा के केन्द्रीय पंजिका (अप्रैल 2004 से सितम्बर 2007)

क्रम संख्या	सीधा पंजीयन संख्या एवं तिथि	नाम व पिता का नाम	अर्हता/प्रदाय निकाय एवं उत्तीर्ण वर्ष	पता
1	2	3	4	5
1.	00001 13.4.04	एस. बृपथिराज के. सोमासुन्दरम बलैयाह	बी.आई.एम., एम.डी. (सिद्ध) मदुरै कामराज वि.वि., मदुरै 1979, 1983	रीडर, गवर्नमेन्ट सिद्ध मेडिकल कालेज, अरुम्बक्कम, चेन्नई-106, (तमिलनाडु)
2.	00002 13.4.04	ए. के. पारी ए. कन्नाप्पन	बी.आई.एम. मदुरै, कामराज वि.वि., मदुरै 1975	स्पेशल ग्रेड असिस्टेंट लेक्चरर, गवर्नमेन्ट मेडिकल कालेज, चेन्नई-106 (तमिलनाडु)
3.	00003 13.4.04	के. मणिकावासकम के. कुमार स्वामी	बी.आई.एम., एम.डी. (सिद्ध) मदुरै कामराज वि.वि., मदुरै 1979, 1985	रीडर गवर्नमेन्ट सिद्ध मेडिकल कालेज, चेन्नई-106 (तमिलनाडु)
4.	00004 13.4.04	एम. विनोबाजी जे. आर. मल्लैयाह	बी.एस.एम.एस. मदुरै कामराज वि.वि., मदुरै 1986	असिस्टेंट मेडिकल आफिसर सिद्ध ए.ए.जी.आई.एम. अस्पताल, चेन्नई-106 (तमिलनाडु)
5.	00005 16.4.04	एस. गोपालाकृष्णन वी. एम. सुन्दरम	बी. आई. एम. मद्रास वि.वि., मद्रास 1970	संयुक्त निदेशक, इंडियन मेडिसिन एवं होम्योपैथी विभाग, चेन्नई।
6.	00006 6.5.05	एम. ए. कुमार एम. असीरवाथम	बी. आई.एम., एम. डी. (सिद्ध) मदुरै कामराज वि. वि., मदुरै 1975, 1984	उप-सलाहकार सिद्ध, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली
7.	00007 8.7.04	एस. राजा सिंह सेलवनयागम सुब्बैयाह	बी. एस. एम. एस. डा. एम. जी. आर. मेडि. वि. वि., चेन्नई, 1999	15/4, वझविलाहाथु पुथेन वीडु करुनगल, कन्याकुमारी।
8.	00008 3.8.04	वी. अरूणाचलम जी. वेल्लाल्याथेवर	बी. आई. एम., एम. डी. (सिद्ध) मदुरै कामराज वि. वि., मदुरै 1973, 1978	प्रिंसिपल, सान्थीगिरी सिद्ध मेडिकल कालेज पो. आ. कोलियाकोडे, थिरुवनन्थापुरम।
9.	00009 17.8.04	वी. रविशंकर वी. विश्वनाथन	बी. आई. एम. मदुरै कामराज वि.वि., मदुरै 1974	सहायक निदेशक सिद्ध सीसीआरएएस इन्स्टीट्यूशनल एरिया, जनकपुरी, नई दिल्ली
10.	00010 23.8.04	डी. वेलायुदम एल. दैवासीगमणि	बी. एस. एम. एस. डा. एम. जी. आर. मेडि. वि.वि., चेन्नई, 1999	354, 19वीं स्ट्रीट, एनएसके नगर, चेन्नई 106

1	2	3	4	5
11.	00011 23.8.04	एस. थियागराजन डी. समीनादने	बी. एस. एम. एस. डा. एम. जी. आर. मेडि. वि.वि., चेन्नई, 1999	नं. 5, अबिरानी नोर्थ स्ट्रीट टी. आर. पथिनम, कराईकल, पांडीचेरी।
12.	00012 12.1.05	जे. नीना प्रिया जेयाचन्द्रन इस्सार्ल	एम. डी. (सिद्ध) डा. एम.जी.आर. मेडि. वि.वि., चेन्नई, 1999	सान्थीगिरी सिद्ध मेडिकल कालेज, पो.आ. सान्थीगिरी, थिरुवनन्थापुरम।
13.	00013 12.1.05	पी. हरीहरन एस. पट्टाबीरमण	बी.एस.एम.एस., एम.डी. (सिद्ध) डा. एम.जी.आर. मेडि. वि.वि., चेन्नई, 1995, 1999	सान्थीगिरी सिद्ध मेडिकल कालेज, पो.आ. सान्थीगिरी, थिरुवनन्थापुरम।
14.	00014 12.1.05	वी. बी. विजय कुमार वी. के. बालाकृष्णन नायर	एम. डी. (सिद्ध) डा. एम.जी.आर. मेडि. वि.वि., चेन्नई, 2001	सान्थीगिरी सिद्ध मेडिकल कालेज, पो.आ. सान्थीगिरी, थिरुवनन्थापुरम। केरल।
15.	00015 17.1.05	ए. असैथम्बी वी. दैकालम	बी.एस.एम.एस. मदुरै कामराज वि.वि., मदुरै 1989	अरिगनार अन्ना गवर्नमेन्ट अस्पताल आफ इंडियन मेडिसिन, चेन्नई (तमिलनाडु)
16.	00016 17.1.05	के. गुनासेकरण एम. कृष्णासामी	बी. आई. एम. मदुरै कामराज वि.वि., मदुरै 1982	302/89, पेपर मिल्स रोड, पेम्बुर। चेन्नई (तमिलनाडु)
17.	00017 2.5.05	ए. बालामुरुगन ए.पी. अथिनारायणन	एम. डी. (सिद्ध) डा. एम.जी.आर. मेडि. वि.वि., चेन्नई, 1999	गवर्नमेन्ट प्राइमेरी हेल्थ सेन्टर, अरुमुगनेर, थूथुकुडी (तमिलनाडु)
18.	00018 2.5.05	पी. गनेशा पेरूमल पी. पेरूमल	एम. डी. (सिद्ध) डा. एम.जी.आर. मेडि. वि.वि., चेन्नई, 1999	8/190, मेन स्ट्रीट, मुडीवैथनडल, थूथुकुडी-02 (तमिलनाडु)
19.	00019 1.9.05	आर. परिमला एम. रेंगाराजू	बी.एस.एम.एस. डा. एम.जी.आर. मेडि. वि. वि., चेन्नई 2003	प्राइवेट प्रेक्टिस एरनाकूलम।
20.	00020 8.11.05	पी. वी. अजगरासी जी. पेरूमल	बी.एस.एम.एस. डा. एम. जी. आर. मेडि. वि.वि., चेन्नई, 2003	3/14, पहला क्रॉस स्ट्रीट, पेरुन्थमिड क्लीनिक, राजदेईसिंह नगर, गिनगी, विल्लुपुरम (तमिलनाडु)
21.	00021 8.11.05	के. अकिला एम. कृष्णामूर्ति	बी.एस.एम.एस. डा. एम.जी.आर. मेडि. वि.वि., चेन्नई, 2003	33/17, चिन्नारत्ना चेट्टी स्ट्रीट, चेंगलपट्टा (तमिलनाडु)
22.	00022 23.11.05	सुषमा सनासम सनासम नबकुमार सिंह	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर 2005	सिंगेजेमेई ओकराम लिक्ई इम्फाल वेस्ट मणिपुर
23.	00023 18.7.06	एस. भानु रेखा श्री एस. थेजोनिधि	बी.एस.एम.एस. डा. एम. जी. आर. मेडि. वि.वि., चेन्नई, 2003	26, श्रीराम कालोनी, सनदेरियम, चेन्नई-600047
24.	00024 21.4.07	सुगन्धी बी. बालासुब्रामनियन एस.	बी.एस.एम.एस. डा. एम.जी.आर. मेडि. वि.वि., चेन्नई, 2003	62/3, देशराम बिल्डिंग, पहला तल द्वारा गोविन्द गोलडन एसोसिएट लक्ष्मी मार्किट, मुनिरका, नई दिल्ली-67
25.	00025 10.9.07	मुबारक एच. हयाथ बाशा ए.	बी.एस.एम.एस. डा. एम.जी.आर. मेडि. वि.वि., चेन्नई, 2003	नं. 8, नाडुथक्का स्ट्रीट, अस्पताल रोड, कल्लाकुरिची जिला-विल्लुपुरम-606202 (तमिलनाडु)

प्रेमराज शर्मा

रजिस्ट्रार

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

**RESERVE BANK OF INDIA
DEPARTMENT OF GOVERNMENT & BANK ACCOUNTS**

Mumbai, the 18th September 2007

In pursuance of Rule 18 of the Public Debt Rules, 1946 made by the Government of India under Section 28 of the Public Debt Act, 1944 and published in the Gazette of 20th April, 1946 [as amended under the Notification No. F (8)/70-B/52 dated the 29th April, 1954 and the Notification in Extra Ordinary Gazette No. 67 dated 21st February 1990], the following list of securities lost etc. in respect of which prima facie ground exists for believing that the securities have been lost and the claim of applicant is just for the month ended August, 2007 is hereby advertised. All persons other than the respective claimants named below, who have any claim upon these securities should communicate immediately with Chief General Manager, Reserve Bank of India, Central Office, Department of Government and Bank Accounts, Central Debt Division, Mumbai-400008.

The list has been divided into two parts List "A" being securities now advertised for the first time and List "B" being the list of securities previously advertised.

List "A"

No. of Security	Value in Rs./Grams	In whose name issued	From what date bearing interest	Name(s) of the claimant(s) for issue of duplicate and/or payment of discharge value	No. and date of order issued
1	2	3	4	5	6

-Nil-

List "B"

**BYCULLA MUMBAI CIRCLE
9% Relief Bonds 1999
(DEMAT)**

GPH BCN026022	Rs. 40,000/-	Prabhakar Gajanan Jaguste (Deceased) & Prabhavati Prabhakar Jaguste (Either or survivor)	8.7.2000	Prabhakar Gajanan Jaguste (Deceased) Prabhavati Prabhakar Jaguste	06.25.102 11-5-07
------------------	--------------	--	----------	--	----------------------

J. M. BAVA
Asstt. Manager

STATE BANK OF INDIA

Mumbai, the 24th June 2007

SBD. No. 04/2007-08—In pursuance of Section 29(1) of State Bank of India (Subsidiary Banks) Act 1959, the State Bank of India, after consulting the Board of Directors of State Bank of Bikaner & Jaipur and with the approval of the Reserve Bank of India, have appointed Shri S. K. Bhattacharyya as Managing Director of State Bank of Bikaner & Jaipur for a further period from 29.5.2007 to 28.5.2008 (both days inclusive).

O. P. BHATT
Chairman

SBD. No. 06/2007-08—It is hereby notified for general information that in pursuance of clause (c) of sub-section (1) of Section 25 of State Bank of India (Subsidiary Banks) Act 1959, the State Bank of India has, in consultation with Govt. of India and Reserve Bank of India, nominated Shri Sunder Lal Tiwari, Amahiya, Reva-486001, Madhya Pradesh as a director on the Board of Directors of State Bank of Indore for a period of two and half years with effect from 21st July 2007 to 20th January 2010 (both days inclusive) in place of Shri K. S. Johar.

O. P. BHATT
Chairman

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

New Delhi-110058, the 11th September 2007

No. 07-50/2007-DCR—The Central Council of Indian Medicine has, in pursuance of Section 25 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970) maintained a register as the Central Register of Indian Medicine which contains the names of persons enrolled on the Central Register of Indian Medicine directly from April, 2004 to September, 2007 and who possess any of the medical qualifications recognised under the Act.

Now, therefore, in pursuance of Sub-Section (2) of Section 23 of Indian Medicine Central Act, 1970, the Registrar, Central Council of Indian Medicine, New Delhi hereby directs that the Central Register of Indian Medicine shall be published in the Gazette of India for general information.

Note.—Every care has been taken to compile the Central Register of Indian Medicine from April, 2004 to September, 2007 as per Section 25 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 and omission/corrections, if any, be reported to the Registrar, CCIM, 61-65, Institutional Area, New Delhi-110058 for rectification of the same in the next publication of the Register.

CENTRAL REGISTER OF INDIAN MEDICINE OF THE PRACTITIONERS OF AYURVED, SIDDHA & UNANI
REGISTERED BY CCIM DIRECTLY (from April, 2004 to September, 2007)

Sl. No.	DCR. No. & Date	Name & Father's Name	Qualification/Awarding Body & Year of Award	Address
1.	2.	3.	4.	5.
1.	00001 13.04.04	S. Boopathiraj K. Somasundaram Baliah	B.I.M., M.D. (Siddha) M.K. Univ., Madurai 1979, 1983	Reader Govt. Siddha Medical College, Arumbakkam, Chennai-106 (TN)
2.	00002 13.04.04	A. K. Pari A. Kannappan	B.I.M. M. K. Univ., Madurai 1975	Spl. Grade Asstt. Lecturer, Medical College, Chennai-106 (TN)
3.	00003 13.04.04	K. Manickavasakam K. Kumar Swamy	B.I.M., M.D. (Siddha) M. K. Univ., Madurai 1979, 1985	Reader, Govt. Siddha Medical College Chennai-106 (TN)
4.	00004 13.04.04	M. Vinobaji J. R. Mallaiah	B.S.M.S. M.K. Univ., Madurai 1986	Asstt. Medical Officer (Siddha) AAGIM. Hospital, Chennai-106 (TN)
5.	00005 16.04.04	S. Gopalakrishnan V. M. Sundaram	B.I.M. Univ. of Madras 1970	Joint Director, Indian Medicine & Homoeopathy Department, Chennai
6.	00006 06.05.04	M.A. Kumar M. Aseervatham	B.I.M., M.D. (Siddha) M. K. Univ., Madurai 1975, 1984	Deputy Adviser (Siddha) Ministry of H & F.W., New Delhi
7.	00007 08.07.04	S. Raja Singh Selvanayagam Subbiah	B.S.M.S. Dr. MGR Med. Univ., Chennai 1999	15/4, Vazhavilahathu Puthen Veedu, Karungal, Kanyakumari
8.	00008 03.08.04	V. Arunchalam G. Vellalyathevar	B.I.M., M.D. (Siddha) M.K. Univ., Madurai 1973, 1978	Principal, Santhigiri Siddha Med. Coll., PO. Koliyacode, Thiruvananthapuram

1.	2.	3.	4.	5.
9.	00009 17.08.04	V. Ravishankar V. Viswanathan	B.I.M. M.K. Univ., Madurai 1974	Asstt. Dir. (Siddha), CCRAS Institutional Area, Janakpuri, New Delhi
10.	00010 23.08.04	D. Velayudam L. Deivasigamani	B.S.M.S. Dr. MGR Med. Univ., Chennai 1999	354, 19th Street, NSK Nagar, Chennai-106
11.	00011 23.08.04	S. Thiagarajan D. Saminadane	B.S.M.S. Dr. MGR Med. Univ., Chennai 1999	No. 5, Abirani North Street, T. R. Pathinam, Karaikal Pondicherry
12.	00012 12.01.05	J. Nina Priya Jeyachandran Israel	M.D. (Siddha) Dr. MGR Med. Univ., Chennai 1999	Santhigiri Siddha Medical College, PO. Santhigiri, Thiruvananthapuram
13.	00013 12.01.05	P. Hariharan S. Pattabiraman	B.S.M.S., MD (Siddha) Dr. MGR Med. Univ., Chennai 1995	Santhigiri Siddha Medical College, PO. Santhigiri, Thiruvananthapuram
14.	00014 12.01.05	V.B. Vijayakumar V. K. Balakrishnan Nair	M.D. (Siddha) Dr. MGR Med. Univ., Chennai 2001	Santhigiri Siddha Medical College, PO. Santhigiri, Thiruvananthapuram Kerala
15.	00015 17.01.05	A. Asaithambi V. Adaikalam	B.S.M.S. M. K. Univ., Madurai 1989	Arignar Anna Govt. Hospital of Indian Medicine, Chennai (TN)
16.	00016 17.01.05	K. Gunasekaran M. Krishnasamy	B.I.M. M.K. Univ., Madurai 1982	302/89, Paper Mills Road, Perambur, Chennai (TN)
17.	00017 02.05.05	A. Balamurugan A. P. Athinarayanan	M.D. (Siddha) Dr. MGR Med. Univ., Chennai 1999	Govt. Primary Health Centre, Arumuganer, Thoothukudi (TN)
18.	00018 02.05.05	P. Ganesa Perumal P. Perumal	M.D. (Siddha) Dr. MGR Med. Univ., Chennai 1999	8/190, Main Street, Mudivaithanendal, Thoothukudi-02 (TN)
19.	00019 1.09.05	R. Parimala M. Rangaraju	B.S.M.S. Dr. MGR Med. Univ., Chennai 2003	Private Practice, Ernakulam
20.	00020 08.11.05	P. V. Azagarasi G. Perumal	B.S.M.S. Dr. MGR Med. Univ., Chennai 2003	3/14, First Cross Street, Perunthamizh Clinic, Rajadeisingh Nagar, Gingee, Villupuram (TN)
21.	00021 08.11.05	K. Akila M. Krishnamoorthy	B.S.M.S. Dr. MGR Med. Univ., Chennai 2003	33/17, Chinnarathna Chetty Street, Chengalpatta (TN)

1.	2.	3.	4.	5.
22.	00022 23.11.05	Sushma Sanasam Sanasam Nabakumar Singh	B.A.M.S. Utkal Univ., Bhubaneswar 2005	Singjamei Okram Leikai, Imphal West Manipur-795008
23.	00023 18.07.06	S. Bhanu Rekha Shri S. Thejonidhi	B.S.M.S. Dr. MGR Med. Univ., Chennai 2003	26, Sriram Colony, Sanatorium Chennai-600047
24.	00024 21.04.07	Suganthi B. Balasubramanian S.	B.S.M.S. Dr. MGR Med. Univ., Chennai 2003	62/3, Deshram Building, 1st Floor, C/o Govind Golden Associates, Laxmi Market, Munirka, New Delhi-67
25.	00025 10.09.07	Mubarak H. Hayath Basha A.	B.S.M.S. Dr. MGR Med. Univ., Chennai 2003	No. 8, Naduthakka Street, Hospital Road, Kallakurichi Distt.-Villupuram-606202 (TN)

P. R. SHARMA

Registrar

Central Council of India Medicine

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित

एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2007

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND

PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2007